



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1209/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (212)-2021

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-445

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-848/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (15)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

(1) उक्त अधिसूचना में,-

(एक) खण्ड (एक) में, शब्द "और मोटर साइसकिल", के स्थान पर, शब्द "मोटर साइकिल, ओमनिबस किसी अन्य मोटर यान", रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(चार) विनिर्दिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंटस आदि द्वारा पूर्ति की जाने वाली सेवाओं के अलावा रेस्तरां सेवा की पूर्ति।"

(2) उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में,-

(एक) मद (ख) में, शब्द कोष्ठक, संख्या और अंक "और मोटर साइकिल का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (22), (25) और (26) क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, संख्या और अंक "मोटर साइकिल, मोटरयान और ओमनिबस के वही अर्थ होंगे जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (22), (25) (27), (28) और (29) में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं" रख दिये जायेंगे;

(दो) मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) विनिर्दिष्ट परिसर का तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जो ‘ऐसे होटल की व्यवस्था’ की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पाँच सै रुपये प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समकक्ष हो”।

2—यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,  
संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1209/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (212)-2021, dated December 20, 2021 :

No. 1209/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (212)-2021

*Dated Lucknow, December 20, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (5) of Section 9 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments to further amend notification no. KA.NI.-2-848/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (15)-2017, dated 30<sup>th</sup> June, 2017, namely :-

(1) In the said notification,—

(i) in clause (i), *for* the words "and motor cycle", the words "motor cycle, omnibus or any other motor vehicle", shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (iii), the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints *etc.* located at specified premises".

(2) In the said notification, in Explanation,—

(i) in item (b), *for* the words, brackets, numbers and figures "and motor cycle shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of Section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988)", the words, brackets, numbers and figures, "motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988)", shall be *substituted*.

(ii) *after* item (b), the following shall be *inserted*, namely :-

"(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent."

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2022.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 534 राजपत्र-2022-(1189)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 40 सा० राज्य कर-2022-(1190)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।